



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072023-247594  
CG-DL-E-25072023-247594

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3179]

No. 3179]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2023/श्रावण 3, 1945

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2023/SHRAVANA 3, 1945

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2023

**का.आ. 3321(अ).**—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 22 मार्च, 2023 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1386 (अ), तारीख 21 मार्च, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, "दैनिक जागरण" और "द टाइम्स आफ इंडिया" में तारीख 06 अप्रैल, 2023 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया, तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या संरचना रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला: गिरिडीह

| क्र. सं. | मौजा का नाम | थाना नं. | खाता संख्या | प्लॉट संख्या | क्षेत्रफल (एकड़ में) | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | जमीन का प्रकार | जमीन की प्रकृति | मालिक / हितबद्ध व्यक्ति का नाम  |
|----------|-------------|----------|-------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------|---|
| 1        | कोरियाडीह   | 169      | 47          | 884          | 0.0810               | 0.0328                   | रैयती          | टांड-2          | अशोक कुमार गुप्ता,<br>नरेश कुमार गुप्ता,<br>अनिल कुमार गुप्ता<br>पिता धर्मचन्द्र<br>हलवाई<br>माता-डालो देवी |

[फा. सं. 2023/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2424]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु.)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2023

**S.O. 3321(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O.1386 (E), dated the 21st March, 2023, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd March, 2023 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Giridih in the State of Jharkhand;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely, “Dainik Jagran” and “The Times of India” dated the 06th April, 2023 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered by the Competent Authority, accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.—

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Giridih in the State of Jharkhand.

**DISTRICT: GIRIDIH**

| Sl. No. | Name of Mouza | Thana No | Khata Number | Plot No. | Area (in Acre) | Area (in Hectare) | Type of Land | Nature of Land | Name of Owner / Interested Persons   |
|---------|---------------|----------|--------------|----------|----------------|-------------------|--------------|----------------|--|
| 1       | Koriyadih     | 169      | 47           | 884      | 0.0810         | 0.0328            | Raiyati      | Tand-2         | Ashok Kumar Gupta, Naresh Kumar Gupta, Anil Kumar Gupta<br>S/o Dharamchandra Haluwai<br>Mother- Dalo Devi. |

[F. No. 2023/LML-II/12/2/EC/2424]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&amp;A)